

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 80]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 26 फरवरी 2020—फाल्गुन 7, शक 1941

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन

58, अरेरा हिल्स, भोपाल-462011

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2020

क्र. एफ-53NN-01-2020-पांच-77.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरपालिका परिषद, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के माह फरवरी-2020 में कराये गये अध्यक्ष पद के उप निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं:—

| क्रमांक | नगरपालिका परिषद का नाम, जिले का नाम सहित | पद | निर्वाचित व्यक्ति का नाम | दल से सम्बद्धता |
|---------|---|---------|--------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | नगरपालिका परिषद मन्दसौर, जिला मन्दसौर. | अध्यक्ष | श्री राम कोटवानी | भारतीय जनता पार्टी |

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
दुर्ग विजय सिंह, सचिव.